

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रतापारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, बुधवार, अक्षय्य 8, 1975/आश्विन 16, 1897

No. 200] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 1975/ASVINA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th October, 1975

SUBJECT.—*Export against Commodity Credit of Rs. 100 Million (1974) extended by the Government of India to the Govt. of Bangla Desh.*

No. 43-ETC(PN)/75.—Attention is invited to Public Notice No. 28/ETC/PN/75 dated the 2nd July, 1975 issued by the Ministry of Commerce, on the above subject.

2. The matter has been further reviewed and it has been decided that after S. No. 29 in the aforesaid Public Notice, the following may be deemed to have been added :—

30. Aluminium tubing for Jute Bobbin Industry
31. Tobacco for Cigarette Industry
32. Other items to be decided upon

Rs.

6,59,295

13,50,000

12,40,705

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

नियमित व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1975

विषय.—भारत सरकार द्वारा बांगला देश की सरकार के लिए बढ़ाए गए 10 करोड़ रुपये के पण्य ऋण (1974) के प्रति निर्यात ।

सं० 43-ई०टी०सी०(पी०एन०)/75.—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 28 ई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 2 जुलाई, 1975 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. मामले की आगे पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना में क्रम संख्या 29 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं जोड़ी गई समझी जाएं :—

“30. पटसन बोबिन उद्योग के लिए अल्पूमिनियम ट्यूबिंग	6,59,295/- रुपये
31. सिगरेट उद्योग के लिए तम्बाकू	13,50,000/- रुपये
32. निश्चित की जाने वाली अन्य मदें	12,40,705/- रुपये

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।